



आपातकालीन राहत पैकेज

आपातकालीन राहत पैकेज उपलब्ध हैं उन दुर्बल लोगों के लिए जो coronavirus (COVID-19) के कारण, अनिवार्य स्वयं-एकांतवास में हैं। इनमें उन लोगों के लिए आवश्यक खाद्य-सामग्रियाँ एवं व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं हैं जिनके पास कम या बिल्कुल भी खाद्य पदार्थ नहीं हैं, और उन्हें सहायता देने के लिए परिवार एवं मित्रों का कोई समूह नहीं है।

जहाँ संभव है, हम लोगों को उन्हें सहायता एवं सहारा प्रदान करने के लिए ऐसे परिवारजनों या मित्रों का प्रबंध करने के लिए कह रहे हैं जिन्हें स्वयं-एकांतवास में रहने की आवश्यकता नहीं है।

इसे पाने के लिए आप तभी योग्य हो सकते हैं जब आप coronavirus के कारण अनिवार्य स्वयं-एकांतवास में हों, आपके पास खाद्य पदार्थ कम या बिल्कुल नहीं हों, और आपको सहायता देने के लिए परिवार एवं मित्रों का कोई भी समूह नहीं हो। सभी निवेदनों को आवश्यकता एवं महत्वता के आधार पर आँका जाता है, उन्हें प्राथमिकता देते हुए जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है।

पैकेज पाने के लिए, coronavirus हॉटलाइन को 1800 675 398 पर कॉल करें। यह प्रतिदिन 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन कार्य कर रही है। अगर आपको एक दुभाषिण की आवश्यकता है, TIS National को 131 450 पर कॉल करें।

अगर आप स्वयं हॉटलाइन को कॉल करने में असमर्थ हैं, तो परिवार का कोई सदस्य, मित्र, देख-रेख करने वाला/वाली या सेवा प्रदाता आपकी ओर से कॉल कर सकता है।

आवेदन करने के लिए आपका ऑस्ट्रेलियन निवासी होना आवश्यक नहीं है।

राहत पैकेज के भीतर की सामग्री

पैकेज में मूलभूत भोज्य पदार्थ हैं जैसे कि सिरीअल, लंबी-अवधि तक खराब न होने वाला दूध, चीनी, पास्ता एवं डिब्बाबंद सब्जियाँ, साथ में साबुन, डिओडोरेंट और टूथपेस्ट। परिवार के आधार पर, पैकेज में अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं जैसे कि शिशुओं संबंधी उत्पाद और बिल्ली या कुत्ते के लिए भोजन।

राहत पैकेज निःशुल्क हैं। हरेक पैकेज, दो सप्ताह के लिए मूलभूत भोजन आवश्यकताएं एवं व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं प्रदान करने हेतु बनाया गया है। पैकेज में भोजन एवं अन्य उत्पादों की मात्रा परिवार के आकार एवं आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

यह पैकेज केवल मूलभूत उत्पादों के साथ बनाये गए हैं और कौन से उत्पाद प्रदान किए जाएंगे इस संदर्भ में चयन करने की संभावना सीमित है।

पके हुए भोजनाहार

अगर कोई व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बीमार है, तो भोजनाहार प्रदान करने या पहुँचाने के लिए विचार किया जा सकता है।

पैकेजों का वितरण

रेड क्रॉस, साल्वेशन आर्मी या ऑस्ट्रेलिया पोस्ट अनिवार्य स्वयं-एकांतवास में रह रहे पैकेज प्राप्त योग्य परिवारों तक पैकेज पहुंचाएंगे।

इस प्रकाशन के आसानी से देखे जा सकने वाले प्रारूप के लिए [Emergency Management Communications](#) को em.comms@dhhs.vic.gov.au पर ईमेल करें।

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.

© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, March 2020.

ISBN 978-1-76069-381-7 (pdf/online/MS word)

Available at [About Coronavirus \(COVID-19\)](#) <https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19> पर उपलब्ध है।

Emergency Relief Packages - Hindi